

सं. 25: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		दिसं. 27	नवं. 21	नवं. 28	दिसं. 5	दिसं. 12	दिसं. 19	दिसं. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	8030	5888	4769	4942	5630	7006	8147
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	6404	16737	18314	12915	11616	11511	9748
1.3 राज्य सरकारें	40315	109146	87428	92934	104434	102640	115431	115495
1.4 अन्य	115688	88165	97276	93016	95244	92654	88382	86005
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	49106	45085	44002	45240	41465	41467	38754
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	34108	40276	42451	37346	38987	43407	47594
2.3 राज्य सरकारें	11078	8515	16430	15430	13944	10744	8744	8744
2.4 अन्य	104994	80386	85439	85346	90214	92848	89426	88952
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	76181	72918	76901	75373	73229	71573	71002
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	104156	81117	80376	81560	80644	81075	85326
3.3 राज्य सरकारें	37389	35184	45822	46164	46058	44787	45054	43392
3.4 अन्य	162757	160663	160965	157723	158867	163526	165652	161972
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	173736	190449	171204	89757	151632	143551	168003
4.4 अन्य	572	449	766	1723	1660	472	1094	835
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	790381	760045	755380	757428	766136	758771	768729	765131

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल, 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे बिक्री योग्य नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।